



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 25—मई 1, 2009 (वैशाख 5, 1931)
No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 25—MAY 1, 2009 (VAISAKHA 5, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

दिनांक 8 अप्रैल 2009

नई दिल्ली-110101, दिनांक 13 अप्रैल 2009

सं. ए-22017/2/2004/पीएमए-पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहायक निजी सचिव श्री के. आर. पाण्डेय को दिनांक 13 अप्रैल, 2009 (अपराह) से उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2009

सं. आरएस/42/1(1)/2009/12-कार्मिक-राज्य सभा के माननीय सभापति ने संसदीय कार्य मंत्रालय में अब तक संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत श्री पी. गोपालकृष्णन, (सीएसएस डी आर-76) को प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 2 अप्रैल, 2009 के अपराह से आगामी आदेशों तक राज्य सभा सचिवालय में 37,400--67,000 रु. के वेतन बैंड-4+12,000 रु. के ग्रेड वेतन में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, निदेशक

सं. आरएस/42/9/2009/11-कार्मिक-राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत संयुक्त निदेशक (एस), श्री आर. एन. भटनागर को उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के पूरा होने पर 6 अप्रैल, 2009 के अपराह से इस सचिवालय में उनके कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

सी. बी. राय, निदेशक

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. ए-19011/04/2008-प्रशा.-1-राष्ट्रपति, विश्व बैंक में वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉ. प्रजापति त्रिवेदी को मंत्रिमंडल सचिवालय में 02 जनवरी, 2009 के अपराह से तीन वर्ष की अवधि के लिए सचिव (निष्पादन प्रबंधन) तथा अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता के रूप में संविदा आधार पर नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णमूर्ति, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
नई दिल्ली-110001, दिनांक 6 अप्रैल 2009

सं. 181/11/2008/2820--सक्षम प्राधिकारी, एतद्द्वारा, निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को दिनांक 01.04.2009 से अगले आदेशों तक के लिए नियमित आधार पर निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:--

- (1) श्री राजेश अरोड़ा
- (2) श्री संजय अदलखा

एस. आर. कार, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2009

सं. ए-32013/3/2005-प्रशा.-I(वि.वि.)--राष्ट्रपति सहर्ष, श्री एम. डी. सिद्दिकी, सहायक विधायी परामर्शी (उर्दू) को विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में उप विधायी परामर्शी (प्रा.भा.) के पद पर दिनांक 20 मार्च, 2009 की पूर्वाह्न से रुपए 15,600--39,100-7,600 के वेतन बैंड में छः माह की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जा भी पहले हो, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री एम. डी. सिद्दिकी को न तो उप विधायी परामर्शी (प्रा.भा.) के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा वरिष्ठता के प्रयोजन से अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए गिनी जाएगी।

एल. आर. राव, उप सचिव

सं. ए-12026/4/2004-प्रशा. 1(वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में उप विधायी परामर्शी (प्रा.भा.) श्री बी. पलकशैया को विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के राजभाषा खंड में दिनांक 20 मार्च, 2009 की पूर्वाह्न से छः माह तक की अवधि के लिए और अगले आदेशों तक, रुपए 37,400--67,000 के वेतन बैंड + रुपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर अपर विधायी परामर्शी (प्रा.भा.) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री बी. पलकशैया को न तो अपर विधायी परामर्शी (प्रा.भा.) के पद पर नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा करने का अधिकार मिलेगा और न ही उनके द्वारा तदर्थ आधार पर की गई सेवा वरिष्ठता के प्रयोजन से और न ही अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए गिनी जाएगी।

एल. आर. राव, उप सचिव

दिनांक 1 अप्रैल 2009

सं. ए-12025(i)/1/2007-प्रशा.-I(वि.वि.)--डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय, उप विधायी परामर्शी, जिन्हें अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड II) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को दिनांक 01 अप्रैल, 2009 के अपराह्न से उप विधायी परामर्शी के पद पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।

एल. आर. राव, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2009

सं. ए-12025(i)/1/2007-प्रशा. I (वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में उप विधायी परामर्शी डॉ. (सुश्री) मुकुलिता विजयवर्गीय को विधि एवं न्याय मंत्रालय के कथित विभाग में दिनांक 6 अप्रैल, 2009 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए तथा अगले आदेशों तक, रुपए 37,400--67,000 के वेतन बैंड तथा रुपए 8,700/- के ग्रेड वेतन में, तदर्थ आधार पर अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति डॉ. सुश्री मुकुलिता विजयवर्गीय, को अपर विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति का हक प्रदान नहीं करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं को, उस ग्रेड में वरीयता के उद्देश्य से अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी पदोन्नति हेतु गिना जाएगा।

दया चन्द, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2009

सं. ए-32012/1/2008-प्रशा. I (वि. का.)--राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में उप सरकारी अधिवक्ता श्री बी. के. प्रसाद व श्रीमती अनिल कटियार को दिनांक 27 मार्च, 2009 से रु. 37,400--67,000/- के वेतनमान में (रु. 8,700/- के ग्रेड वेतन सहित) स्थानापन्न रूप से अपर सरकारी अधिवक्ता के पद (भारतीय विधि सेवा के सरकारी अधिवक्ता सेवा संवर्ग का ग्रेड II) पर नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं सं. 4241/2008, 4598/2007 तथा 1385/2008 के अंतिम निर्णय के अध्वधीन है।

वी. रवीन्द्रन, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2009

सं. 20/जी/3029-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, श्री अशोक लवासा, भा.प्र.से. (हरियाणा : 80), को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में 37,400--67,000/-रु. (पी. बी.-4) के पे बैंड और 10,000/-रु. के ग्रेड-पे में दिनांक 2 अप्रैल, 2009 (पूर्वाह्न) से अगले पांच वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 8 अप्रैल 2009

सं. ए-32014/7/2007-प्रशा.1(क)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (के.स.आ.से.) के श्री पी. के. वैद्य (वरीयता सं. 4), निजी सचिव, जो कि गृह मंत्रालय संवर्ग में तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को उनके नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (के.स.आ.से.) के चयन ग्रेड 2004 के निजी सचिव ग्रेड (प्रधान निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पी.बी.-3 (रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/-) शामिल किए जाने के अनुसरण में नियमित आधार पर

प्रधान निजी सचिव के पद पर दिनांक 11.02.2009 के अपराह्न से नियुक्त करते हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2009

सं. ए-19011/4/2008-अं. रा. प. (प्रशा.) (पार्ट)--राष्ट्रपति, श्री मुकुल जोशी, भा.प्र.से. (पंजाब : 75) को अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में सचिव के रैंक और वेतनमान में भारत सरकार के सचिव के रूप में दिनांक 1 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं। श्री जोशी, केन्द्र-राज्य संबंध आयोग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

का. प्र. मिश्रा, निदेशक

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 अप्रैल 2009

सं. 14015/12/2008-अ. भा. से (I) क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2008 के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत केरल के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग में पदोन्नति कोटि रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत दिनांक 23 फरवरी, 2009 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के अंतर्गत, दिनांक 25 मार्च, 2009 को अनुमोदित निम्नलिखित नामों वाली केरल राज्य सिविल सेवा अधिकारियों की चयन सूची को अधिसूचित करती हैं :-

चयन सूची 2008

क्र.सं. अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1	2
सर्वश्री	3
1. पी. जी. थामस	16.09.1954
2. ई. देवदासन	13.03.1959
3. एम. नंदकुमार	30.05.1956
4. पी. एस. मौहम्मद सागिर (अ.पि.व.)	30.05.1959
5. पी. एम. अली असगर पाशा (अ.पि.व.)	05.07.1963
6. पी. एम. फ्रांसिस	11.05.1957
7. के. वी. मोहन कुमार	31.12.1958
8. वी. सनल कुमार	30.04.1959
9. के. एन. सतीश	28.05.1960
10. के. जी. राजू (अनु. जा.)	11.02.1955
11. टी. भास्करन (अनु. जा.)	08.09.1956

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

सं. 14015/12/2008-अ. भा. से. (I) ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, चयन सूची वर्ष 2008 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में केरल की राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करती हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के तहत, भारतीय प्रशासनिक सेवा के केरल संवर्ग में उनका आबंटन करती हैं :-

क्र.सं. अधिकारी का नाम

1	2
	सर्वश्री
1.	पी. जी. थामस
2.	ई. देवदासन
3.	एम. नंदकुमार
4.	पी. एस. मौहम्मद सागिर (अ.पि.व.)
5.	पी. एम. अली असगर पाशा (अ.पि.व.)
6.	पी. एम. फ्रांसिस
7.	के. वी. मोहन कुमार
8.	वी. सनल कुमार
9.	के. एन. सतीश
10.	के. जी. राजू (अनु. जा.)
11.	टी. भास्करन (अनु. जा.)

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2009

सं. 15011/2/2008-प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, इस विभाग के अवर सचिव श्री सुकार सिंह दिनांक 31 मार्च, 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

वी. के. वाधवा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2009

सं. 01/2009 (फा. सं. 26/01/2009-प्रशा. I ग)--राष्ट्रपति, श्री अशोक जिंदल, अधिवक्ता को दिनांक 6 मार्च, 2009 (पूर्वाह्न) से और 62 वर्ष की

आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण, मुम्बई में सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

सं. 02/2009 (फा. सं. 27/34/2007-प्रशा.1ग)--राष्ट्रपति, बंबई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री आर. एम. एस. खांडेपार्कर को दिनांक 16 मार्च, 2009 के पूर्वाह्न से 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2009

सं. 02/2009-ई. एस. (फा. सं. 5/15/2008-ई. एस.)--राष्ट्रपति, श्री ओ. पी. शर्मा, भारत वित्त आसूचना एकक में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 01.10.2008 से 30.09.2009 तक एक और वर्ष (छठे वर्ष) की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2009

सं. 03/2009-ई. एस. (फा. सं. 5/23/2008-ई. एस.)--राष्ट्रपति, श्री एन. रे, भारत वित्त आसूचना एकक में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 03.04.2009 से 02.04.2010 तक एक और वर्ष (चौथे वर्ष) की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

सं. 04/2009-ई. एस. (फा. सं. 5/23/2008-ई. एस.)--राष्ट्रपति, श्री एस. सम्पत, भारत वित्त आसूचना एकक में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 1.05.2009 से 30.04.2010 तक एक और वर्ष (चौथे वर्ष) की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

सं. 05/2009-ई. एस. (फा. सं. 5/23/2008-ई. एस.)--राष्ट्रपति, श्री जे. के. हिगिंग्स, भारत-वित्त आसूचना एकक में वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 15.06.2009 से 14.06.2010 तक एक और वर्ष (चौथे वर्ष) की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. जी. पी. वर्गीज, अवर सचिव

विनिवेश विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 अप्रैल 2009

सं. 10(3)2003-प्रशासन--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.03.2009 के कार्यालय आदेश संख्या 5/2/2009-सीएस-II के साथ पठित और व्यय विभाग के दिनांक 25 मार्च, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए-12025/6/2005-सीएस के अनुसरण में, राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित ग्रेड 'सी' आशुलिपिक श्री यतिराज सहगल को विनिवेश विभाग में 25 मार्च, 2009 के पूर्वाह्न से 9,300—34,800 रुपए (पीबी-2) जिसमें ग्रेड पे 4,800/- रुपए है, के पे बैंड में आशुलिपिक ग्रेड ए एण्ड बी (मर्ज्ड) में नियुक्त करते हैं।

अनीता चौहान, निदेशक (प्रशासन)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 31 मार्च 2009

सं. ए-19011/3/1979-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री वी. के. मुट्रेजा, सलाहकार (तकनीकी), भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.03.2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की अनुमति देते हैं।

के. के. शर्मा, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 2 अप्रैल 2009

सं. ए-12025/24/08-सीएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अभिजीत साहा को 23.02.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यक्षन विशेषज्ञ उप-सर्वर्ग में बाल चिकित्सा विज्ञान की स्पेशियलिटी में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करते हैं।

वी. पी. राणा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 अप्रैल 2009

सं. ए-12025/38/2004-सीएस-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. लक्ष्मण रामचन्द्रन को 14.10.2006 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपए (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. लक्ष्मण रामचन्द्रन को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. लक्ष्मण रामचन्द्रन नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए-12025/170/2005-सीएस-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. दीपा शर्मा को 01.05.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपए (पूर्व-संशोधित)

वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. दीपा शर्मा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. दीपा शर्मा नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए-12025/105/2006-सीएचएस-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अनुपम अग्रवाल को 10 सितम्बर 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपये (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. अनुपम अग्रवाल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. अनुपम अग्रवाल नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 9 अप्रैल 2009

सं. ए-12025/31/2006-सीएचएस-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. शिखा जैन को 16 सितम्बर 2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक 8,000-275-13,500/- रुपये (पूर्व-संशोधित) वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. शिखा जैन जो पहले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थीं को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. शिखा जैन नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

माया प्रकाश, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2009

सं. ए-19013/02/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार आर. परमार, आई. ए. एस. (जम्मू और कश्मीर : 1992) को दिनांक 23.03.2009 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 मार्च 2009

सं. ए-38016/9/2008-स्थापना-III--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर डॉ. (श्रीमती) आई. पी. कौर, उपायुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 31.03.2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

दिनांक 8 अप्रैल 2009

सं. ए-19011/1/2009-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री वी. वेंकटचलम, भारतीय प्रशासनिक सेवा (उप : 1977) को 1 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

अरविन्द कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2009

सं. 19012/13/2006-ईए--श्री आर. एन. कार (भारतीय आर्थिक सेवा के जे. ए. जी.), संयुक्त निदेशक, सीएसपी, जो 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में थे, का दिनांक 01 जनवरी, 2009 को निधन हो गया है।

डी. के. राय, अवर सचिव

सं. 19012/6/2008-ई.ए.--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा (आई.ई.एस.) के वरिष्ठ समयमान (एसटीएस) स्तर के एक अधिकारी श्री डी. एस. शेखावत को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में 10,000-325-15,200 रुपये के पूर्व संशोधित वेतनमान (पी. बी. 3 + ग्रेड पे 6,600/-रु. में संशोधित) में 09 मार्च, 2009 के पूर्वाह्न से उप निदेशक के पद पर नियुक्त करती है।

डी. के. राय, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 11 फरवरी 2009

सं. 2-1/2005-प्रशा. (पार्ट)--सचिव, डाक विभाग द्वारा विभाग में कनिष्ठ विश्लेषक (कार्य अध्ययन) के पद पर वेतन बैंड (पीबी-2) 9,300-34,800+4200/- (ग्रेड वेतन) में निम्नलिखित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति (तदर्थ) आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि को 08.11.2008 से आगे एक और वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है:--

क्रम सं. नाम

1. श्री धर्मवीर यादव
2. श्री सुशील कुमार

2. कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर इन अधिकारियों की नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. वेतन-II दिनांक 05.01.1994 में निहित प्रावधानों और समय-समय पर इसमें हुए संशोधनों के अनुसार विनियमित होगी।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

दिनांक 27 फरवरी 2009

सं. 1-2/2004-प्रशा.--वर्ष 2006 के लिए सीएसएस चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची में नाम शामिल होने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 4/9/2008-सीएस. 1(घ)

दिनांक 17.02.2009 के क्रम में, राष्ट्रपति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अवर सचिव (सीएसएस का ग्रेड-1), श्री आर. बी. चावला को डाक विभाग में सीएसएस के चयन ग्रेड (निदेशक) में 15,600--39,100रु.+7,600रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड (पीबी-3) में दिनांक 24.02.2009 (पूर्वा.) से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

भगवान दास, सहायक महानिदेशक (प्रशा.)

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अप्रैल 2009

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री एस. के. विज, सदस्य इंजीनियरी, रेलवे बोर्ड और रेल मंत्रालय में भारत सरकार के पदेन सचिव अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.03.2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--रेलवे बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 28.02.2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं:--

(1) श्री गुरमेल सिंह--संयुक्त निदेशक

(2) श्रीमती रीता कक्कड़--अनुभाग अधिकारी

के. बी. एल. मित्तल, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2009/14/3--श्री आर. के. बत्रा, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आरबीएसएसएस) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव को 01.04.2009 के पूर्वाह्न से 14,300--18,300रु. (संशोधन पूर्व) के वेतनमान के तदनुसार संशोधित पे बैंड-4 (37,400--67,000रु.+8,700रु. ग्रेड पे) में प्रमुख स्टाफ अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव, रेलवे बोर्ड

सं. ईआरबी-1/2007/10/4--श्री दर्शन सिंह रूपराव, प्रमुख निजी सचिव, रेलवे बोर्ड का 22.02.2009 को निधन हो गया है।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव, रेलवे बोर्ड

दिनांक 13 अप्रैल 2009

सं. ईआरबी-1/2009/2/32--राष्ट्रपति जी, श्री राकेश चोपड़ा, भा. रे. इंजी. से., महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे को 01.04.2009 के अपराह्न से 80,000/- रुपए के ग्रेड (निर्धारित) में सदस्य (इंजीनियरी) रेलवे बोर्ड और भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

के. बी. एल. मित्तल, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च 2009

सं. ए-32013/02/2008-ई-II--राष्ट्रपति, श्री निर्मलजीत सिंह, मुख्य अभियन्ता, जो केन्द्रीय इंजीनियरी सेवा (सड़क) समूह 'क' के अधिकारी हैं और वर्तमान में अपर महानिदेशक का अतिरिक्त भार ग्रहण किए हुए हैं, को दिनांक 20.03.2009 (पूर्वाह्न) से रु. 37,400--67,000+12,900/- (ग्रेड पे) के वेतनमान में पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग में नियमित आधार पर अपर महानिदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 1 अप्रैल 2009

सं. ए-38013/01/2008-स्था.-II (बी)--सेवा निवृत्ति की आयु पूरी करने पर, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली में साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' के अधिकारी श्रीमती ए. आर. लक्ष्मी, मुख्य प्रारूपकार, दिनांक 31.03.2009 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

डी. आर. शर्मा, अवर सचिव

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2009

सं. ए-12025/1/2007-प्रशा.1 (वोल्यू. II)--राष्ट्रपति जी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित अनुभाग अधिकारियों को निम्नानुसार पूर्णतया तदर्थ आधार पर और अगले आदेशों के होने तक इस संवर्ग के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में नियुक्ति करते हैं:--

क्र.	नाम	सीएसएल सं.	अवर सचिव (तदर्थ) के रूप में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री टी. नन्द कुमार	6217	17.11.2008 (पूर्वाह्न)
2.	श्री डी. पी. सिंह	6225	11.09.2008 (पूर्वाह्न)

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

दिनांक 8 अप्रैल 2009

सं. ए-22012/01/2008-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री विजय कुमार सिंह, भा.वि.से. (हि.प्र. 86) को श्रम और रोजगार मंत्रालय में निदेशक के रूप में, दिनांक 24.10.2008 के (पूर्वा.) से पांच वर्ष की सामान्य कार्यावधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करती हैं।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 13th April 2009

No. A-22017/2/2004-PMA—Shri K. R. Pandey, appointed as Assistant Private Secretary to Former PM Shri Atal Bihari Vajpayee, is relieved of his duties with effect from 13.04.2009 (AN).

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd April 2009

No. RS/42/1(1)/2009/12-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri P. Gopalakrishnan (CSS DR-76), hitherto working as Joint Secretary in the Ministry of Parliamentary Affairs, as Additional Secretary in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 12,000/- in the Rajya Sabha Secretariat on deputation basis w.e.f. the afternoon of 2nd April 2009 and until further orders.

C. B. RAI, Director

The 8th April 2009

No. RS/42/9/2009/11-Perl.—Sh. R. N. Bhatnagar, Joint Director(s) in the Rajya Sabha Secretariat stands relieved of his duties in the Secretariat w.e.f. the afternoon of the 6th April, 2009, on completion of his tenure of deputation.

C. B. RAI, Director

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 18th March 2009

No. A-19011/04/2008-Ad-I—The President is pleased to appoint Dr. Prajapati Trivedi, Senior Economist, World Bank, as Secretary (Performance Management) and Chairman, National Authority for Chemicals Weapons Convention, Cabinet Secretariat with effect from afternoon of 2nd January, 2009, for a period of three years on contract basis.

R. KRISHNAMURTY, Under Secy.

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 6th April 2009

No. 181/11/2008/2820—The Competent Authority hereby appoints the following Personal Assistants as Private Secretaries in the PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with corresponding Grade Pay Rs. 4,800/-, on regular basis, w.e.f. 01.04.2009 and until further orders.

- (1) Shri Rajesh Arora
- (2) Shri Sanjay Adlakha

S. R. KAR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 31st March 2009

No. A-32013/3/2005-Admn.I (L. D.)—The President is pleased to appoint Shri M. D. Siddiqui, Assistant Legislative Counsel (Urdu) to officiate as Deputy Legislative Counsel (Regional Languages) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + 7,600/- in the Official Language Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice on adhoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 20th March, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

2. This adhoc appointment will neither bestow on him any claim whatsoever for regular appointment to the grade of Deputy Legislative Counsel (Regional Languages) nor the services so rendered by him will count for the purpose of seniority in the higher grade.

L. R. RAO, Dy. Secy.

No. A-12026/4/2004-Admn.I (L. D.)—The President is pleased to appoint Shri B. Palakshaiah, Deputy Legislative Counsel (R. L.) in the Official Languages Wing of the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel (R. L.) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in the said Wing of the Legislative Department of Ministry of Law and Justice on adhoc basis for a period of six months with effect from the forenoon of 20th March, 2009 or until further orders.

2. This adhoc appointment will not bestow on Shri B. Palakshaiah any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Legislative Counsel (R. L.) nor the adhoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for his promotion to the next higher grade.

L. R. RAO, Dy. Secy.

The 1st April 2009

No. A-12025(i)/1/2007-Admn.I (L. D.)—Dr. (Ms.) Mukulita Vijayawargiya, Deputy Legislative Counsel who was appointed to officiate as Additional Legislative Counsel (Grade II of ILS) on ad-hoc basis stands reverted to the post of Deputy Legislative Counsel with effect from the afternoon of 1st April, 2009.

L. R. RAO, Dy. Secy.

New Delhi, the 6th April 2009

No. A-12025(i)/1/2007-Admn.I (L. D.)—The President is pleased to appoint Dr. (Ms.) Mukulita Vijayawargiya, Deputy

Legislative Counsel in the Legislative Counsel Department, Ministry of Law and Justice to the post of Additional Legislative Counsel (Grade II of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/-, in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad-hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 6th April, 2009 and until further orders.

2. This ad-hoc appointment will not bestow on Dr. (Ms.) Mukulita Vijayawargiya any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Additional Legislative Counsel (Grade II of ILS) nor the ad-hoc services rendered by her will count for the purpose of seniority in the grade or for her promotion to the next higher grade.

DAYA CHAND, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 2nd April 2009

No. A-32012/1/2008-Admn.I (LA) -The President is pleased to appoint Shri B. K. Prasad and Smt. Anil Katiyar, Deputy Government Advocates in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, to officiate as Additional Government Advocates (Grade-II of Service cadre of Government Advocate of Indian Legal Service) in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- w.e.f. 27th March, 2009, subject to the final outcome of the Writ Petitions Nos. 4241/2008, 4598/2007 and 1385/2008 pending in the Hon'ble High Court of Delhi.

V. RAVINDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 6th April 2009

No. 20/G/3029-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Ashok Lavasa, IAS (FY : 80) as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) and Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 2nd April, 2009 (forenoon) for a period of 5 years or until further orders, whichever event takes place earlier.

J. B. SHARMA, Under Secy.

The 8th April 2009

No. A-32014/7/2007-Ad.I (A)—The President is pleased to appoint Shri P.K. Vaid (Seniority No. 4), Private Secretary of CSSS, working as Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the Cadre of Ministry of Home Affairs, to the post of Principal Private Secretary on regular basis with effect from the afternoon of 11.02.2009, consequent upon inclusion of his name in the Select List Year 2004 in the Private Secretary Grade (designated as Principal Private Secretary) of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100 + GP Rs. 6,600).

J. B. SHARMA, Under Secy.

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 2nd April 2009

No. A-19011/4/2008-ISC (Adm.) (Pt.)—The President is pleased to appoint Shri Mukul Joshi, IAS (PB : 75) as Secretary to the Government of India, Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs in the rank and pay of Secretary with effect from the forenoon of 1st April, 2009. Shri Joshi will hold additional charge of Secretary, Commission on Centre-State Relations.

K. P. MISHRA, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 8th April 2009

No. 14015/12/2008-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Kerala containing the following names prepared on 23rd February, 2009 under Regulation 5(5) and approved on 25th March, 2009, under Regulation 7(2) towards filling up promotion quota vacancies in IAS Cadre of Kerala under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government during the Select List year 2008 :—

SELECT LIST 2008

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	P. G. Thomas	16.09.1954
2.	E. Devadasan	13.03.1959
3.	M. Nandakumar	30.05.1956
4.	P. S. Muhammed Sagir (OBC)	30.05.1959
5.	P. M. Ali Asgar Pasha (OBC)	05.07.1963
6.	P. M. Francis	11.05.1957
7.	K. V. Mohan Kumar	31.12.1958
8.	V. Sanal Kumar	30.04.1959
9.	K. N. Satheesh	28.05.1960
10.	K. G. Raju (SC)	11.02.1955
11.	T. Bhaskaran (SC)	08.09.1956

S. S. SHUKLA, Under Secy.

No. 14015/12/2008-AIS (I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service

(Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Kerala to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List year 2008, on probation until further orders and to allocate them to the IAS Cadre of Kerala under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 :—

Sl. No.	Name of the Officer
---------	---------------------

- | | |
|-----|-----------------------------|
| | S/Shri |
| 1. | P. G. Thomas |
| 2. | E. Devadasan |
| 3. | M. Nandakumar |
| 4. | P. S. Muhammed Sagir (OBC) |
| 5. | P. M. Ali Asgar Pasha (OBC) |
| 6. | P. M. Francis |
| 7. | K. V. Mohan Kumar |
| 8. | V. Sanal Kumar |
| 9. | K. N. Satheesh |
| 10. | K. G. Raju (SC) |
| 11. | T. Bhaskaran (SC) |

S. S. SHUKLA, Under Secy.

DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONER'S WELFARE

New Delhi, the 2nd April 2009

No. 15011/2/2008-Admn. I—On attaining the age of superannuation, Shri Sukar Singh, Under Secretary in this Department retires from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 2009.

V. K. WADHWA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi the 31st March 2009

No. 01/2009. (F. No. 26/01/2009-Ad. IC)—The President is pleased to appoint Sh. Ashok Jindal, Advocate as Member (Judicial) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Mumbai with effect from 6th March, 2009 (forenoon) and till attaining the age of 62 years or till further orders.

VICTOR JAMES, Under Secy.

No. 02/2009—The President is pleased to appoint Mr. Justice R. M. S. Khandeparkar, retired Judge of the Bombay High Court, as President of the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), w.e.f. the forenoon of 16th March, 2009 for a period till he attains the age of 65 years or until further orders, whichever is earlier.

VICTOR JAMES, Under Secy.

New Delhi, the 6th March 2009

No. 2/2009-ES (F. No. 5/15/2008-ES)—The President is pleased to extend the deputation tenure of Shri O. P. Sharma, Senior Technical Officer in the Financial Intelligence Unit-India, on usual deputation terms, for a further period of one year (sixth year) w.e.f. 01.10.2008 to 30.09.2009 or till appointment on regular basis is made or till further orders, whichever is earlier.

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

The 31st March 2009

No. 3/2009-ES (F. No. 5/23/2008-ES)—The President is pleased to extend the deputation tenure of Shri N. Ray, Senior Technical Officer in the Financial Intelligence Unit-India, for a further period of one year w.e.f. 03.04.2009 to 02.04.2010 (4th year), or till appointment on regular basis is made or till further orders, whichever is earlier.

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

No. 4/2009-ES (F. No. 5/23/2008-ES)—The President is pleased to extend the deputation tenure of Shri S. Sampath, Senior Technical Officer in the Financial Intelligence Unit-India, for a further period of one year w.e.f. 01.05.2009 to 30.04.2010 (4th year), or till appointment on regular basis is made or till further orders, whichever is earlier.

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

No. 5/2009-ES (F. No. 5/23/2008-ES)—The President is pleased to extend the deputation tenure of Shri J. K. Higgins, Senior Technical Officer in the Financial Intelligence Unit-India, for a further period of one year w.e.f. 15.06.2009 to 14.06.2010 (4th year), or till appointment on regular basis is made or till further orders, whichever is earlier.

S. G. P. VERGHESE, Under Secy.

DEPARTMENT OF DISINVESTMENT

New Delhi-110003, the 13th April 2009

No. 10(3)/2003-Admn.—In pursuance of O. M. No. A-12025/6/2005-CAS dated 25th March 2009 of the Department of Expenditure and read with Department of Personnel &

Training's O. M. No. 5/2-2009-CS.II dated 16.03.2009, the President is pleased to appoint Shri Yati Raj Sehgal, a regular Stenographer Grade 'C' as Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Department of Disinvestment in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) plus Grade Pay of Rs. 4,800 - with effect from the forenoon of 25th March 2009.

ANITA CHAUHAN, Director (Admn.)

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC
ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi-110011, the 31st March 2009

No. A-19011-3-1979-Admn.—The President is pleased to allow Shri V. K. Mutreja, Adviser (Technical), Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises to retire from Government Service with effect from the afternoon of 31st March, 2009 on attaining the age of superannuation.

K. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 2nd April 2009

No. A-12025/24/08-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Abhijeet Saha to the post of Assistant Professor in the Specialty of Paediatric in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 23.02.2009 and until further orders.

V. P. RANA, Under Secy.

New Delhi-110108, the 8th April 2009

No. A-12025/38/2004-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Lakshman Ramachandran to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 14.10.2006 until further orders. Dr. Lakshman Ramachandran is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi. Dr. Lakshman Ramachandran shall be on probation for a period of two years with effect from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A-12025/170/2005-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Deepa Sharma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of

Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 01.05.2008 until further orders. Dr. Deepa Sharma is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Deepa Sharma shall be on probation for two years with effect from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A-12025/105/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anupam Agarwal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 10th September 2008 until further orders. Dr. Anupam Agarwal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Anupam Agarwal shall be on probation for two years with effect from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 9th April 2009

No. A-12025/31/2006-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Shikha Jain to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 16.09.2008 until further orders. Dr. Shikha Jain who was earlier posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi, is presently posted as Medical Officer in Dr. RML Hospital, New Delhi. Dr. Shikha Jain shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th March 2009

No. A-19013/2/2009-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar R. Parmar, IAS (JK : 1992) as Director in the Department of Health & Family Welfare for a period of five years w.e.f. 23.03.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

The 31st March 2009

No. A-38016/9/2008/E.III—On attaining the age of superannuation, Dr. (Mrs.) I. P. Kaur, Deputy Commissioner in the Department of Health & Family Welfare shall retire from Govt. Service w.e.f. 31.03.2009 (AN).

ARVIND KUMAR, Under Secy.

The 8th April 2009

No. A-19011/1/2009-Estt.I—The President is pleased to appoint Shri V. Venkatachalam, IAS (UP : 1977) as Additional Secretary in the Ministry of Health & Family Welfare with effect from the forenoon of 1st April, 2009 and until further orders.

ARVIND KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND
COOPERATION)

New Delhi, the 6th April 2009

No. A-19012/13/2006-EA—Shri R.N. Kar, (JAG of IES), Joint Director, CACP, in the pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/-, has expired on 1st January, 2009.

D. K. ROY, Under Secy.

No. A-19012/6/2008-EA--The President is pleased to appoint Shri D. S. Shekhawat, a Senior Time Scale (STS) Level Officer of Indian Economic Service (IES), to the post of Deputy Director, in the Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture and Cooperation, in the pre-revised pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- (Revised to PB-3 + Grade Pay of Rs. 6,600/-) with effect from the forenoon of 9th March, 2009.

D. K. ROY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 11th February 2009

No. 2-1/2005-Admn.(Pt.)—The Secretary, Department of Posts, hereby extends the tenure of appointment on deputation (ad hoc) basis of the following Officers to the post of Junior Analyst (Work Study) in the Department in the (PB-2) Rs. 9,300--34,800/- + Rs. 4,200/- (Grade Pay), for a further period of one year with effect from 08.11.2008 :—

Sl. No.	Name
1.	Shri Dharamvir Yadav
2.	Shri Susheel Kumar

2. The appointment of these officers to the post of Junior Analyst will be regulated in accordance with provisions contained in Department of Personnel and Training's O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994, as amended from time to time.

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

The 27th February 2009

No. 1-2/2004-Admn.—Consequent upon his inclusion in the Selection Grade (Deputy Secretary) Select List of CSS for the year 2006 and in pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 4/9/2008-CS. I (D) dated 17.02.2009, the President is pleased to appoint Shri R. B. Chawla, Under Secretary (Grade I of CSS) of Ministry of Labour & Employment to Selection Grade of CSS (Director) in the Department of Posts, in the (PB-3) of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 7,600/- (Grade Pay) with effect from 24.02.2009 (FN) on regular basis.

BHAGWAN DAS, Asstt. Director General (Admn.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 9th April 2009

No. ERB-I/2007/10/4—Shri S.K. Vij, Member Engineering, Railway Board and ex-officio /Secretary to the Government of India in the Ministry of Railways retired from service with effect from the afternoon of 31.03.2009, on attaining the age of superannuation.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2007/10/4—The following Officers of Railway Board retired from service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28.02.2009 :—

- | | | |
|------|--------------------|------------------|
| (i) | Shri Gurmail Singh | Joint Director |
| (ii) | Smt. Rita Kakkar | Section Officer. |

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2009/14/3—Shri R. K. Batra, Senior Principal Private Secretary of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) has been promoted as Principal Staff Officer in the scale of Rs. 14,300—18,300/- (pre-revised) corresponding to the revised Pay Band-4 (Rs. 37,400—67,000 + Grade Pay of Rs. 8,700/-) with effect from the forenoon of 01.04.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

No. ERB-I/2007/10/4—Shri Darshan Singh Rooprao, Principal Private Secretary, Railway Board expired on 22.02.2009.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

The 13th April 2009

No. ERB-1/2009/2/32—The President is pleased to appoint Shri Rakesh Chopra, IRSE, General Manager, Southern Railway as Member (Engg.), Railway Board and ex-officio Secretary to the Government of India in the Grade of Rs. 80,000/- (fixed) with effect from the afternoon of 01.04.09.

K. B. L. MITTAL, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 31st March 2009

No. A-32013/02/2008-E-II—The President is pleased to appoint Shri Nirmaljit Singh, Chief Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' holding additional charge of the post of Additional Director General as Additional Director General on regular basis in the pay scale of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 12,000/- in the Department of Road Transport & Highways, New Delhi with effect from 20.03.2009 (FN) and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

The 1st April 2009

No. A-38013/1/2008-Estt.II (B)—On attaining the age of superannuation, Smt. A. R. Lakshmi, Chief Draughtsman,

an Officer of the General Central Service, Group 'B' in the Department of Road Transport and Highways has retired from Government service on 31.03.2009 (AN).

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 6th April 2009

No. A-12025/1/2007-Adm.-I (Vol. II)—The President is pleased to appoint the undermentioned regular Section Officers of CSS to Grade-I (Under Secretary) of the Cadre purely on ad-hoc basis and until further orders as detailed below :—

Sl. No.	Name	CLS No.	Date of Appointment as Under Secretary (Adhoc)
1.	Sh. T. Nanda Kumar	6217	17.11.2008 (FN)
2.	Sh. D. P. Singh	6225	11.09.2008 (FN)

PRADEEP GAUR, Under Secy.

The 8th April 2009

No. A-22012/01/08-Adm.-I—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Singh, IFS (HP-86) as Director in the Ministry of Labour & Employment with effect from the forenoon of 24.10.2008 for a normal tenure of 5 (five) years or until further orders, whichever is earlier.

PRADEEP GAUR, Under Secy.